



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012025-259934
CG-DL-E-06012025-259934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946

No. 3]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSA 13, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 02 जनवरी, 2025

सं. 37 / 2024-25

विषय: विदेश व्यापार नीति में विशिष्ट प्रावधान (प्रावधानों) के संरूपण, संशोधन अथवा शामिल करने के संबंध में आयातकों/निर्यातकों/उद्योग विशेषज्ञों सहित संबंधित हितधारकों द्वारा विचारों, सुझावों, टिप्पणियों अथवा प्रतिपुष्टि को प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक 2023 के अध्याय 1 में पैरा 1.04 (ट) का शामिल करते हुए संशोधन।

फा. सं. 01/92/180/50/एम 25/पीसी-6/ई-40921— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.04 के साथ पठित पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2023 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

1.04 (ट) विचारों, सुझावों, टिप्पणियों, अथवा प्रतिपुष्टि का प्रस्तुतीकरण

विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.07क में दिए गए अनुसार विचारों, सुझावों, टिप्पणियों अथवा प्रतिपुष्टि को प्राप्त करने का तरीका ऐसे विचार, सुझाव, टिप्पणियां अथवा प्रतिपुष्टि मांगने हेतु सार्वजनिक सूचना/व्यापार सूचना में प्रदान किया जाएगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.07क के तहत व्यापार सुविधा उपाय के रूप में आयातकों/निर्यातकों/उद्योग विशेषज्ञों सहित संबंधित हित धारकों द्वारा विचारों, सुझावों, टिप्पणियों अथवा प्रतिपुष्टि मांगने हेतु प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है, जिसमें केन्द्र सरकार के पास विदेश व्यापार नीति में विशिष्ट प्रावधान (प्रावधानों) के संरूपण, संशोधन अथवा शामिल करने के संबंध में हितधारकों द्वारा उनके विचारों, सुझावों, टिप्पणियों अथवा प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए परामर्श का विकल्प उपलब्ध है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवंपदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

Public Notice

New Delhi, Dated: 02nd January, 2025

No. 37/ 2024-25

Subject: Amendment by incorporation of Para 1.04 (k) in Chapter 1 of the Handbook of Procedures 2023 to specify the procedure for furnishing views, suggestions, comments, or feedback from relevant stakeholders including importers/exporters/industry experts concerning the formulation, amendment or incorporation of specific provision(s) in the Foreign Trade Policy.

F. No. 01/92/180/50/AM25/PC-6 /E-40921—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 read with Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendment in Handbook of Procedures 2023 as under:

1.04 (k) Submission of views, suggestions, comments, or feedback

The mode of receiving views, suggestions, comments, or feedback as provided in para 1.07A of the Foreign Trade Policy 2023 shall be provided for in the Public Notice/Trade Notice seeking such views, suggestions, comments, or feedback.

Effect of this Public Notice: Procedure is specified for seeking views, suggestions, comments, or feedback from relevant stakeholders including importers/exporters/industry experts under Para 1.07A of Foreign Trade Policy 2023 as a trade facilitation measure with an option available to the Central Government to consult stakeholders to seek their views, suggestions, comments or feedback concerning the formulation, amendment or incorporation of specific provision(s) in the Foreign Trade Policy.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign TradeEx-Officio Addl. Secy.